

# Zep

## Chapter 2

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

הַתְּקוּשָׁה וְהַגּוֹי לֹא יִבְרָחַהּ 1  
इकट्टे-ही और-इकट्टे-ही ही-जाति नहीं लज्जित।  
[H3700](#) [H3808](#)

लज्जाहीन लोगों, मुरझाये और मरते फूलों की तरह होने के पहले

בְּטֶרֶם יֵלֶדְתָּ אֶת יְהוָה כְּמִן בְּהֵרָא יוֹם יָבֹוא עָלֶיךָ לֹא יִבְרָחַהּ אֶת יְהוָה יְהוָה יֵלֶדְתָּ אֶת יְהוָה 2  
से-पहले से-पहले जैसे-भूसा आज़ा जन्म-का से-पहले बीत-जाता-है दिन तुम-पर आए नहीं- से-पहले यहीवा-का जलजलाहट-  
[H2740](#) [H0935](#) [H3808](#) [H2962](#) [H3117](#) [H4671](#) [H2706](#) [H3205](#) [H2962](#)  
[H3068](#) [H0639](#) [H3117](#) [H0935](#) [H3808](#) [H2962](#) [H3068](#) [H0639](#)

अपने जीवन को बदल डालो। दिन की गर्मी में कोई फूल मुरझायेगा और मर जाएगा। तुम वैसे ही होगे जब यहीवा अपना भयंकर क्रोध प्रकट करेगा। अतः अपने जीवन को, यहीवा द्वारा तुम्हारे विरुद्ध क्रोध प्रकट करने के पहले, बदल डालो!

בְּקִשׁוֹ אֶת-יְהוָה כְּלֹ-יְהוָה יְהוָה בְּקִשׁוֹ אֶת-יְהוָה 3  
खोजी धार्मिकता खोजी- किया। उसके-न्याय जिन्होंने पृथ्वी-के नम्र-लोगों सब- यहीवा को- खोजी  
[H1245](#) [H6664](#) [H1245](#) [H6466](#) [H4941](#) [H0776](#) [H6035](#) [H3605](#) [H3068](#) [H0853](#) [H1245](#)  
עֲנֵה אֶת-יְהוָה אֶת-יְהוָה אֶת-יְהוָה 4  
यहीवा। क्रोध-के- में-दिन तुम-छिप-जाओ शायद नम्रता  
[H3068](#) [H0639](#) [H3117](#) [H5641](#) [H0194](#) [H6038](#)

तुम सभी विनम्र लोगों, यहीवा के पास आओ! उसके नियमों को मानो। अच्छे काम करना सीखो। विनम्र होना सीखो। संभव है तब तुम सुरक्षित रह सको जब यहीवा अपना क्रोध प्रकट करे।

כִּי עָזְבָה עִירָא אֶת-יְהוָה וְאֶשְׁקֶלֶן וְאֶשְׁקֶלֶן וְאֶשְׁקֶלֶן 4  
क्योंकि अज्जा छोड़ी-हुई अज्जा क्योंकि  
[H1644](#) [H0795](#) [H0831](#) [H1961](#) [H5804](#)  
וְעָקְרוּן וְעָקְרוּן וְעָקְרוּן 5  
— उखाड़ी-जाएगी। और-एकरोन  
[H6138](#)

अज्जा नगर में कोई भी नहीं बचेगा। अशकलोन नष्ट किया जायेगा। दोपहर तक लोग अशदोद छोड़ने को विवश किये जायेंगे। एकरोन सूना होगा!

אֶרֶץ כְּנָעַן עָלֶיךָ יְהוָה יְהוָה יְהוָה יְהוָה 5  
देश हे-कनान तुम-पर यहीवा-का वचन- करतियों-की। जाति समुद्र-के तट रहने-वालों हाय  
[H0776](#) [H3068](#) [H1697](#) [H3774](#) [H3220](#) [H3427](#) [H1945](#)  
יְהוָה יְהוָה יְהוָה יְהוָה 6  
रहने-वाले। बिना और-मैं-नाश-करूंगा-तुझे पलिशतियों-का  
[H3427](#) [H0369](#) [H0006](#) [H6430](#)

पलिशती लोगों, सागर के तट पर रहने वाले लोगों, यहीवा का यह सन्देश तुम्हारे लिये है। कनान देश, पलिशती देश, तुम नष्ट कर दिये जाओगे, वहाँ कोई नहीं रहेगा!

וְהָיְתָה וְהָיְתָה וְהָיְתָה 6  
और-होगा और-होगा और-होगा  
[H6629](#) [H1448](#) [H3741](#) [H3220](#) [H1961](#)



12 גַּם- 12  
 אַתֶּם 12  
 כּוֹשִׁיִם 12  
 חָלְלִי 12  
 חָרָבִי 12  
 הָמָה: 12  
 भी- 12  
 तुम 12  
 कूशियों 12  
 मारे-हुए 12  
 मेरी-तलवार-के 12  
 वे। 12  
 H1571 12  
 H3569 12  
 H2719 12  
 H1992 12

कूश के लोगों, इसका अर्थ तुम भी हो। यहोवा की तलवार तुम्हारे लोगों को मार डालेगी

13 וַיֵּט 13  
 וַיְדוֹ 13  
 עַל- 13  
 צָפוֹן 13  
 וַיֹּאבֵד 13  
 אֶת- 13  
 אֲשֶׁר 13  
 וַיִּשָּׂא 13  
 אֶת- 13  
 נִינְוֵה 13  
 और-बढ़ाएगा 13  
 अपना-हाथ 13  
 के-विरुद्ध- 13  
 उत्तर 13  
 और-नाश-करेगा 13  
 को- 13  
 अशूर 13  
 और-कर-देगा 13  
 को- 13  
 नीनवे 13  
 H5186 13  
 H3027 13  
 H6828 13  
 H0006 13  
 H0853 13  
 H0804 13  
 H0853 13  
 H5210 13  
 H0853 13

לְשֹׁמְרוֹתָ 13  
 צִיָּה 13  
 כְּמַדְבָּר: 13  
 के-लिए-उजाड़ 13  
 सूखा 13  
 जैसे-मरुभूमि। 13  
 H6723 13

और यहोवा उत्तर की ओर अपना हाथ बढ़ाएगा और अशूर को दण्ड देगा। वे नीनवे को नष्ट करेगा, वह नगर खाली सूखी मरुभूमि जैसा होगा।

14 וַרְבֵּצוּ 14  
 בְּתוֹכָהּ 14  
 עֲרִירִים 14  
 כָּל- 14  
 חַיֹּתַי- 14  
 גּוֹי 14  
 גַּם- 14  
 קָפַד 14  
 בְּכַפְתָּרֶיךָ 14  
 और-लेटेंगे 14  
 उसके-बीच 14  
 झुंड 14  
 सब- 14  
 पशु- 14  
 जाति-के। 14  
 भी- 14  
 धनश 14  
 भी- 14  
 उसके-खंभों-पर 14  
 H7257 14  
 H8432 14  
 H5739 14  
 H3605 14  
 H1571 14  
 H6893 14  
 H1571 14  
 H7090 14  
 H3730 14

יְלִינוּ 14  
 קוֹל 14  
 יְשׁוּרָר 14  
 בְּחַלּוֹן 14  
 חָרָב 14  
 בְּתֹךְ 14  
 כִּי 14  
 אֲרָזָה 14  
 עָרָה: 14  
 ठहरेंगे। 14  
 आवाज 14  
 गाएगी 14  
 में-खिड़की 14  
 सूखापन 14  
 में-देहली-पर 14  
 क्योंकि 14  
 देवदार 14  
 उघाड़ा-गया। 14  
 H7891 14  
 H2474 14  
 H0731 14  
 H6168 14

तब केवल भेड़ें और जंगली जानवर उस बर्बाद नगर में रहेंगे। उल्लू और कौवे उन स्तम्भों पर बैठेंगे जो खड़े छोड़ दिये गए हैं। उनकी ध्वनि खिड़कियों से आती सुनाई पड़ेगी। कौवे द्वारों की सीढ़ियों पर बैठेंगे। उन सूने घरों में काले पक्षी बैठेंगे।

15 זֹאת 15  
 הָעִיר 15  
 הָעֲלִיזָה 15  
 הַיּוֹשְׁבֹת 15  
 לְבַטָּח 15  
 הָאֹמְרָה 15  
 בְּלִבָּתָהּ 15  
 אֲנִי 15  
 וְאִפְסִי 15  
 עוֹד 15  
 यह-है 15  
 नगर 15  
 आनंदित 15  
 बैठने-वाला 15  
 मैं-निश्चितता 15  
 कहने-वाला 15  
 अपने-मन-में 15  
 मैं 15  
 और-कोई-नहीं 15  
 अब। 15  
 H2063 15  
 H5947 15  
 H3427 15  
 H0983 15  
 H0559 15  
 H3824 15  
 H0589 15  
 H5750 15

וְאֵיךְ 15  
 הִיְתָה 15  
 לְשֹׁמְרוֹתָ 15  
 מְרֻבֵּץ 15  
 לְחַיֹּתָ 15  
 כָּל 15  
 עוֹבְרֵי 15  
 עָלֶיהָ 15  
 יִשְׂרָק 15  
 कैसे 15  
 हो-गया 15  
 के-लिए-उजाड़ 15  
 बैठने-की-जगह 15  
 जंगली-जानवरों-के-लिए। 15  
 सब 15  
 गुजरने-वाले 15  
 उस-पर 15  
 सीटी-बजाएंगे 15  
 H1961 15  
 H8047 15  
 H4769 15  
 H3605 15  
 H8319 15

יְנִיעַ 15  
 יְדוֹ: 15  
 — 15  
 हिलाएंगे 15  
 अपना-हाथ। 15  
 H5128 15  
 H3027 15

नीनवे इन दिनों इतना अधिक घमण्डी है। यह ऐसा प्रसन्न नगर है। लोग समझते हैं कि वे सुरक्षित हैं। वे समझते हैं कि नीनवे संसार में सबसे बड़ा स्थान है। किन्तु वह नगर नष्ट किया जायेगा! यह एक सूना स्थान होगा, जहाँ केवल जंगली जानवर आराम करने जाते हैं। जब लोग उधर से गुजरेंगे और देखेंगे कि कितनी बुरी तरह नगर नष्ट किया गया है तब वे सीटियाँ बजाएंगे और सिर हिलारेंगे।